



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1945 (श10)  
(सं0 पटना 266) पटना, मंगलवार, 28 मार्च 2023

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना  
23 मार्च 2023

सं० 4/अ0प्र0-01-24/2015/1566—बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी विभाग, जिनके नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) का संवर्ग हो, के नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु अधिसूचित नियमावली को निरसित करते हुये जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1174 दिनांक-07.03.2023 द्वारा “बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/ यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली-2023 (Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical/Electrical) Cadre Rule-2023)” अधिसूचित किया गया है।

2. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-1175 दिनांक-07.03.2023 में संसूचित निर्णय के अनुसार राज्यान्तर्गत सभी विभागों, जिनके नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) का संवर्ग हो, के कनीय अभियंता संवर्गों के संदर्भ में “बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली-2023 (Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical/Electrical) Cadre Rule-2023)” को प्रवृत्त किया जाना है।

उक्त के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने अधीनस्थ बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग के लिये पूर्व में अधिसूचित “बिहार ग्रामीण कार्य विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भत्ती नियमावली, 2016” को निरस्त करते हुये जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1174 दिनांक-07.03.2023 द्वारा अधिसूचित “बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली-2023 (Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical/Electrical) Cadre Rule-2023)” को यथावत अधिसूचना निर्गत की तिथि से अंगीकृत (Adopt) किया जाता है।

3. अंगीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

4. अंगीकार के प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
पंकज कुमार पाल,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 266-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>